



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 22] नई दिल्ली, शनिवार, जून 3—जून 9, 2006 (ज्येष्ठ 13, 1928)

No. 22] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 3—JUNE 9, 2006 (JYAISTHA 13, 1928)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची		
भाग I--खण्ड-1--(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	423	भाग II--खण्ड-3--उप खण्ड (iii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)
भाग I--खण्ड-2--(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	493	भाग II--खण्ड-4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
भाग I--खण्ड-3--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	7	भाग III--खण्ड-1--उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं
भाग I--खण्ड-4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	687	भाग III--खण्ड-2--पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस
भाग II--खण्ड-1--अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*	भाग III--खण्ड-3--मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं
भाग II--खण्ड-1क--अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*	भाग III--खण्ड-4--विधिक अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं
भाग II--खण्ड-2--विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*	भाग IV--गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस
भाग II--खण्ड-3--उप खण्ड (i)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*	भाग V--अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूर्ण
भाग II--खण्ड-3--उप खण्ड (ii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं।	*	

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.		Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	423	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	493	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	7	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	1403
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	687	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	237
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi languages of Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1539
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	437
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*	PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*		

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी क गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]
 [Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

अन्तरिक्ष विभाग

बेंगलूर-560 094, दिनांक 12 मई 2006

सं. ए.एस./एस-25.--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष आयोग का पुनर्गठन निम्नलिखित सदस्यों के साथ आगामी आदेश त कर रहे हैं:--

- | | | |
|----|---|-----------------------|
| 1. | श्री जी. माधवन नायर
सचिव, अन्तरिक्ष विभाग | अध्यक्ष |
| 2. | श्री पृथ्वीराज चव्हाण
राज्य मंत्री (प्रधान मंत्री का कार्यालय) | सदस्य |
| 3. | श्री एम. के. नारायणन
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार | सदस्य |
| 4. | श्री टी. के. ए. नायर
प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव | सदस्य |
| 5. | श्री बी. के. चतुर्वेदी
मंत्रिमंडलीय सचिव | सदस्य |
| 6. | श्री ए. के. झा
सचिव, आर्थिक कार्य विभाग | सदस्य व सदस्य (वित्त) |
| 7. | प्रो. आर. नरसिंहा
भूतपूर्व निदेशक, एन.आई.एस. | सदस्य |
| 8. | श्री एन. पंत
भूतपूर्व उपाध्यक्ष, इसरो | सदस्य |
| 9. | डॉ. बी. एन. सुरेश
निदेशक, विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र | सदस्य |

एस. वी. रंगनाथ
सचिव, अन्तरिक्ष आयोग

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 5 मई 2006

संकल्प

संख्या ई-11013/3/2002-हिंदी: राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. II/20015/45/87-रा.भा.(क-2) दिनांक 15.3.1988 तथा दिनांक 4.5.1989, कार्यालय ज्ञापन सं. II/20015/23/88-रा.भा.(क-2) दिनांक 29.6.1988 तथा कार्यालय ज्ञापन सं. II/20015/6/92-रा.भा.(क-2), दिनांक 10.6.1992 के अनुसार भारत सरकार एतद्वारा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति का गठन निम्नानुसार करती है --

गठन

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

अध्यक्ष

गैर-सरकारी सदस्य:लोक सभा से दो संसद सदस्य

- | | | |
|-----|-------------------------|-------|
| (1) | श्री डी.आर. नायक | सदस्य |
| (2) | श्री जसवंत सिंह बिश्नोई | सदस्य |

राज्य सभा से दो संसद सदस्य

- | | | |
|-----|------------------------|-------|
| (3) | श्री गिरीश कुमार सांघी | सदस्य |
| (4) | श्री कलराज मिश्र | सदस्य |

संसदीय राजभाषा समिति से दो संसद सदस्य

- | | | |
|-----|----------------------------|-------|
| (5) | श्री थावर चंद गेहलोत | सदस्य |
| (6) | श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद | सदस्य |

केन्द्रीय सचिवालय हिंदी परिषद, एक्सवाई-68, सरोजिनी नगर,
नई दिल्ली का प्रतिनिधि

- | | | |
|-----|---|-------|
| (7) | श्री मोहन प्रकाश दुबे,
9/8, सेक्टर 1, पुष्प विहार,
नई दिल्ली - 110 017. | सदस्य |
|-----|---|-------|

**अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ, सामुदायिक केंद्र (दिल्ली नगर निगम),
10788-89, झंडेवालान रोड, नबी करीम, नई दिल्ली-110055 का प्रतिनिधि**

- (8) श्री विभूति मिश्र, सदस्य
प्रधान मंत्री,
हिंदी साहित्य सम्मेलन,
12, सम्मेलन मार्ग,
इलाहाबाद - 211000.

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा नामित गैर-सरकारी सदस्य

- (9) डॉ. (श्रीमती) बागेश्री चक्रधर, सदस्य
प्रोफेसर, शहीद भगत सिंह कालेज,
दिल्ली ।
- (10) श्री हरेन्द्र सिंह समदर्शी, सदस्य
यू-55-ए, शकरपुर,
दिल्ली-110067.
- (11) श्री कृष्ण दत्त शास्त्री, सदस्य
आर जेड-40/222, जे. ब्लॉक,
वेस्ट सागरपुर, नई दिल्ली-110046.
- (12) डा. शंभुनाथ सिंह, सदस्य
1329, सेक्टर 12,
आर.के. पुरम,
नई दिल्ली-110022.

गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग) द्वारा नामित गैर-सरकारी सदस्य

- (13) डॉ. टी.आर. भट्ट, सदस्य
"प्रज्ञाश्री", छठा क्रॉस, कल्याण नगर,
धारवाड़ (कर्नाटक-580007)
- (14) डॉ. नजीर मोहम्मद, सदस्य
राहतकदा, डिग्गी रोड (निकट अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज),
अलीगढ़-202001
- (15) श्री नारायणराव शिंदे, सदस्य
नवी शुक्रवारी, दसरा रोड, वार्ड नं.18,
नागपुर-440002

सरकारी सदस्यराजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय)

- | | | |
|------|--------------|-------|
| (16) | सचिव | सदस्य |
| (17) | संयुक्त सचिव | सदस्य |

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

- | | | |
|------|--|------------|
| (18) | सचिव | सदस्य |
| (19) | महानिदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (रा.प्र.सू.वै.सं.) | सदस्य |
| (20) | अपर सचिव | सदस्य |
| (21) | अपर महानिदेशक (राष्ट्रीय लेखा) | सदस्य |
| (22) | अपर महानिदेशक (प्रशिक्षण) | सदस्य |
| (23) | अपर महानिदेशक (क्षेत्र संकार्य प्रभाग, नई दिल्ली) | सदस्य |
| (24) | संयुक्त सचिव (प्रशासन) | सदस्य |
| (25) | उप महानिदेशक (संगणक केन्द्र, नई दिल्ली) | सदस्य |
| (26) | संयुक्त सलाहकार (आ.सं. एवं प.प्र.) | सदस्य |
| (27) | निदेशक (रा.प्र.स.सं.) | सदस्य |
| (28) | निदेशक (प्रशासन) | सदस्य |
| (29) | उप सचिव (वित्त) | सदस्य |
| (30) | उप निदेशक (रा.भा.) | सदस्य-सचिव |

कार्यक्षेत्र

2. समिति का कार्य केंद्रीय हिंदी समिति और राजभाषा विभाग द्वारा सरकारी कामकाज के लिए हिंदी के प्रयोग के संबंध में निर्धारित नीतियों को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में कार्यान्वित करवाने के बारे में सलाह देना होगा।

कार्यकाल

3. समिति का कार्यकाल समिति के गठन की तारीख से, निम्नलिखित बातों के अध्याधीन, सामान्यतः तीन वर्ष का होगा:-

- (क) जो संसद सदस्य समिति के सदस्य हैं, वे संसद सदस्य न रहने पर इस समिति के सदस्य नहीं रहेंगे।
- (ख) समिति के पदेन सदस्य अपने पद पर कार्य करते रहने तक ही समिति के सदस्य रहेंगे।
- (ग) किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने अथवा समिति की सदस्यता से त्यागपत्र दे देने के कारण खाली हुए स्थान पर मनोनीत सदस्य तीन वर्ष के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए ही सदस्य होगा।

मुख्यालय

4. समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

यात्रा भत्ता तथा अन्य भत्ते

5. गैर-सरकारी सदस्यों को समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए, यात्रा तथा दैनिक भत्ता भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निश्चित दरों पर तथा राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 22 जनवरी, 1987 को जारी किए गए कार्यालय ज्ञापन संख्या II/20034/4/86-रा.भा. (क-2) में निहित निर्देशों के अनुसार दिया जाएगा ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों, राष्ट्रपति सचिवालय, उपराष्ट्रपति सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रधान मंत्री कार्यालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, महालेखाकार, केंद्रीय राजस्व और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेजी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

अरुण कुमार सक्सेना
संयुक्त सचिव

दिनांक 16 मई 2006

संकल्प

संख्या ई-11013/3/2002-हिंदी: इस मंत्रालय के दिनांक 5 मई, 2005 के समसंख्यक संकल्प (प्रति संलग्न) में आंशिक संशोधन करते हुए पृष्ठ सं. 3 पर शीर्ष सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत इस मंत्रालय के सरकारी सदस्यों के गठन में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं :-

1. क्रम सं. 20 के सामने निम्नलिखित प्रविष्टि की जाए

महानिदेशक, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन

सदस्य

2. क्रम सं. 24 के सामने निम्नलिखित प्रविष्टि की जाए

संयुक्त सचिव (प्रशासन)

सदस्य सचिव

3. क्रम सं. 30 के सामने निम्नलिखित प्रविष्टि की जाए

उप निदेशक (रा.भा.)

सदस्य

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों, राष्ट्रपति सचिवालय, उपराष्ट्रपति सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रधान मंत्री कार्यालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, महालेखाकार, केंद्रीय राजस्व और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

अरुण कुमार सक्सेना
संयुक्त सचिव

खान मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 15 मई 2006

संकल्प

सं. ई. 10177/2005 हिंदी :- खान मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति के पुनर्गठन से संबंधित खान मंत्रालय के दिनांक 17 मई, 2005 के समसंख्यक संकल्प में आंशिक संशोधन केस्तें हुए इसकी क्रम संख्या 8 के सामने श्रीमती वंगा गीता, संसद सदस्य, राज्य सभा के स्थान पर श्री सुरेश भारद्वाज, संसद सदस्य, राज्य सभा का नाम शामिल किया जाता है। संसदीय राजभाषा समिति द्वारा नामित संसद सदस्य का पता निम्नलिखित है :-

<u>नाम</u>	<u>स्थानीय पता</u>	<u>स्थायी पता</u>
श्री सुरेश भारद्वाज संसद सदस्य, राज्य सभा	18, मीना बाग नई दिल्ली	आर-1 हाउसिंग, बोर्ड कालोनी स्ट्राबेरी हिल्स शिमला- 171002

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति हिंदी सलाहकार समिति के सभी सदस्यों, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय राजभाषा समिति, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, योजना आयोग और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

अजिता बाजपेयी पाण्डे

संयुक्त सचिव

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली-110 016, दिनांक 18 मई 2006

संकल्प

सं0ई0 11017/2/2005-हिन्दी:- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की 'डॉ० मेघनाद साहा पुरस्कार योजना' के अधीन 'विभागीय लेखकों' को शामिल करने के लिए इस विभाग के 6 अगस्त, 1990 की संकल्प संख्या ई- 11017/5/89-हिन्दी में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है:-

पैरा सं०	के स्थान पर	यह पढ़े
7(i)	पुरस्कार योजना में भाग लेने के लिए पात्रता विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग को छोड़कर विभिन्न वैज्ञानिक विभागों तथा इलेक्ट्रॉनिक्स, महासागर विकास, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा पर्यावरण विभाग, गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान और जैव-प्रौद्योगिकी विभागों में कार्य करने वाले अधिकारियों सहित सभी भारतीय नागरिक इस स्कीम में भाग ले सकते हैं।	पुरस्कार योजना में भाग लेने के लिए पात्रता विभिन्न वैज्ञानिक मंत्रालयों/विभागों जैसे सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, महासागर विकास मंत्रालय, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, जैव प्रौद्योगिकी विभाग व वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग) में कार्य करने वाले अधिकारियों सहित सभी भारतीय नागरिक इस स्कीम में भाग ले सकते हैं।

यह संशोधन योजना के अधीन पुरस्कार योग्य, वर्ष 2005 को और उससे आगे प्रकाशित पुस्तकों पर लागू होगा।

यह आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सार्वजनिक सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

यह आदेश भी दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रतिलिपि भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों, राज्य सरकारों/संघ राज्य सरकारों, भारत में सभी विश्वविद्यालयों तथा समाचार एजेंसियों को भेजी जाए। इसे विभाग के वेबसाइट में भी दे दिया जाए।

के. एस. नेपोलियन
निदेशक (प्रशासन)

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 12 मई 2006

संकल्प

सं.ई -11012/1/2006 - हिन्दी. सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग से संबंधित विषयों पर हिन्दी में मौलिक पुस्तक लेखन को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित पुरस्कार योजना एतद्वारा जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित की जाती है।

1. योजना का नाम

इस योजना का नाम " सड़क परिवहन और राजमार्ग से संबंधित विषयों पर हिंदी में मौलिक हिन्दी पुस्तक लेखन प्रोत्साहन पुरस्कार योजना" है।

2. योजना का उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य लेखकों को सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग के कार्यक्षेत्र में आने वाले विषयों पर हिंदी में मौलिक हिन्दी पुस्तक लिखने के लिए प्रोत्साहित करना है। सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग के कार्यक्षेत्र में आने वाले विषयों की सूची अनुबंध-1 में दी गई है।

3. योजना अवधि

किसी वर्ष विशेष के लिए घोषित किए जाने वाले पुरस्कारों के लिए, पूर्ववर्ती 3 वर्षों के ब्लॉक के दौरान प्रकाशित पुस्तकों अथवा ऐसी अवधि के दौरान तैयार की गई पांडुलिपियों पर विचार किया जाएगा।

4. पुरस्कार का विवरण

इस योजना के अन्तर्गत पुरस्कारों के विवरण निम्नानुसार होंगे:-

(क)	सर्वश्रेष्ठ चयनित लेखक	:	30,000/- रुपए नकद और प्रशस्ति पत्र
(ख)	द्वितीय सर्वश्रेष्ठ चयनित लेखक	:	20,000/- रुपए नकद और प्रशस्ति पत्र
(ग)	तृतीय सर्वश्रेष्ठ चयनित लेखक	:	15,000/- रुपए नकद और प्रशस्ति पत्र
(घ)	सांत्वना पुरस्कार (तीन)	:	मूल्यांकन समिति द्वारा नियत नकद राशि और प्रशस्ति पत्र

5. पुरस्कार प्रायोजक

सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग इन पुरस्कारों को प्रायोजित तथा वित्तीय रूप से वहन करेगा।

6. पात्रता

- (i) इस योजना में भारत सरकार/राज्य सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों सहित प्रत्येक भारतीय नागरिक भाग लेने के पात्र होंगे। इस योजना में मूल्यांकन समिति के अध्यक्ष और सदस्यों को छोड़कर, सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग के सभी अधिकारी/ कर्मचारी भी भाग लेने के पात्र होंगे।
- (ii) इस योजना के तहत सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग के कार्यक्षेत्र में आने वाले विषयों पर लिखी पुस्तकें /पांडुलिपियां ही स्वीकार की जाएंगी। कथा साहित्य पुस्तकें इस योजना के तहत पुरस्कार के लिए पात्र नहीं होंगी।
- (iii) पुस्तक /पांडुलिपि (सिंगल स्पेश में टंकित) का मुख्य भाग अनुबंधों, परिशिष्टों, अन्य संलग्नकों को छोड़कर, कम से कम 100 पृष्ठ (लगभग 30,000 शब्दों) का होना चाहिए।
- (iv) किसी सरकारी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा शासकीय हैसियत या शासकीय कामकाज के रूप में लिखी कोई पुस्तक पुरस्कार के लिए पात्र नहीं होगी।
- (v) केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/संघ शासित प्रशासनों अथवा केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/संघ शासित प्रशासनों के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या स्वायत्तशासी निकायों की वित्तीय सहायता से लिखी गई अथवा प्रकाशित पुस्तकें पुरस्कार के लिए पात्र नहीं होंगी।
- (vi) इस योजना में पुरस्कार के लिए केवल मौलिक पुस्तकों पर विचार किया जाएगा और अनुवाद कार्य पर विचार नहीं किया जाएगा।

7. प्रविष्टियां भेजने की प्रक्रिया

- (i) लेखक / लेखिका को विधिवत भरा हुआ प्रविष्टि फार्म (अनुबंध - II के रूप में संलग्न) भेजना होगा।
- (ii) लेखक / लेखिका को अपनी प्रविष्टि फार्म के साथ पांडुलिपि / पुस्तक की पांच प्रतियों के साथ-साथ पांच प्रतियों में इसका संक्षिप्त सार भी भेजना होगा।
- (iii) इस योजना के तहत प्राप्त पांडुलिपियां/पुस्तकें लौटाई नहीं जाएंगी।
- (iv) कोई भी लेखक/लेखिका इस योजना की अवधि विशेष की योजना के लिए एक से अधिक प्रविष्टि भेज सकता/ सकती है परन्तु वह एक से अधिक पुरस्कारों के लिए पात्र नहीं होगा / होगी।
- (v) प्रविष्टि, विज्ञापन में उल्लिखित अंतिम तारीख को या उससे पहले इस विभाग में पहुंच जानी चाहिए।

8. मूल्यांकन समिति

- (क) इस योजना के अन्तर्गत प्राप्त पुस्तकों/पाण्डुलिपियों की जांच करने और पुरस्कारों की सिफारिश करने के लिए एक मूल्यांकन समिति गठित की जाएगी। सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मूल्यांकन समिति के पदेन अध्यक्ष होंगे और समिति में इस विभाग और राजभाषा विभाग से एक-एक अधिकारी के अलावा तीन ऐसे गैर सरकारी सदस्यों को सहयोजित किया जाएगा जिनको हिन्दी भाषा का ज्ञान और विषय में विशेषज्ञता हो।
- (ख) इस योजना के अधीन प्राप्त प्रविष्टियां गैर सरकारी सदस्यों को उनकी टिप्पणियां और विचार प्राप्त करने के लिए भेजी जाएंगी। वे उन पर अपनी टिप्पणियां और विचार मूल्यांकन समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए एक माह के भीतर-भीतर सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग को भेजेंगे।

मूल्यांकन समिति गैर-सरकारी सदस्यों से प्राप्त सिफारिशों पर विचार करने के बाद प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा सात्वना पुरस्कारों का निर्णय करेगी।

- (ग) ये पुरस्कार मूल्यांकन समिति की सिफारिश के अनुसार दिए जाएंगे और पुरस्कार विजेताओं को पत्र द्वारा व्यक्तिगत रूप से सूचित किया जाएगा।
- (घ) मूल्यांकन समिति के गैर सरकारी सदस्य, मूल्यांकन कार्य के लिए 500/- रुपए प्रति प्रविष्टि की दर से मानदेय के हकदार होंगे जिसकी अधिकतम सीमा 2500/- रुपए होगी। वे बैठक में भाग लेने के लिए नियमों के अन्तर्गत अन्य स्वीकार्य भत्तों के भी हकदार होंगे।

9. सामान्य निबन्धन और शर्तें

योजना के प्रतिभागियों को निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों का पालन करना होगा और वे इससे शासित होंगे:-

- (1) रोजगार समाचार (हिन्दी संस्करण) सहित प्रमुख समाचार पत्रों / पत्रिकाओं में विज्ञापन देकर लेखकों से प्रविष्टियां आमंत्रित की जाएंगी।
- (2) इस योजना के अधीन निर्धारित योजना अवधि के दौरान लिखी / प्रकाशित पुस्तकें और टंकित पांडुलिपियां ही स्वीकृत की जाएंगी।
- (3) यह विभाग पुस्तकों/पांडुलिपियों के डाक में खो जाने अथवा देर से प्राप्त होने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
- (4) नियत तारीख के बाद प्राप्त पुस्तकों / पांडुलिपियों पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (5) लेखक / लेखकों को इस आशय का प्रमाण पत्र देना होगा कि यह पुस्तक उसकी / उनकी मौलिक रचना है और कॉपीराइट अधिनियम (समय-समय पर यथा संशोधित), 1997 के तहत किसी अन्य लेखक के कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं करती है। पुरस्कार प्राप्त होने के बाद भी पुस्तकों/पांडुलिपियों पर लेखकों का कॉपीराइट अधिकार बना रहेगा।
- (6) प्रविष्टि किसी अन्य भाषा में पहले लिखी या प्रकाशित पुस्तक का उसी लेखक द्वारा हिन्दी अनुवाद नहीं होना चाहिए।
- (7) ऐसी पुस्तक/पाण्डुलिपि जिसे पहले सरकार की किसी अन्य योजना के अन्तर्गत पुरस्कार प्राप्त हो चुका है, को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- (8) यदि पुस्तक/पाण्डुलिपि के एक से अधिक लेखक हैं तो पुरस्कार की धनराशि उनमें बराबर-बराबर बांट दी जाएगी।
- (9) यदि पुस्तक/पाण्डुलिपि किसी भी पुरस्कार के लिए अपेक्षित स्तर की नहीं पायी जाती है तो मूल्यांकन समिति यदि ठीक समझे तो उस पुस्तक / पाण्डुलिपि के लिए किसी धनराशि (न्यूनतम पुरस्कार से कम) का सात्वना पुरस्कार देने की सिफारिश कर सकती है।
- (10) पुरस्कार के लिए किसी पुस्तक/पाण्डुलिपि को चुने जाने के बारे में कोई पत्र-व्यवहार नहीं किया जाएगा।
- (11) पुरस्कार एक समारोह अथवा किसी उपयुक्त अवसर पर प्रदान किए जाएंगे जिसके बारे में पुरस्कार विजेताओं को सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग द्वारा सूचित किया जाएगा।
- (12) दिल्ली से बाहर के पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार वितरण समारोह में भाग लेने के लिए आने-जाने का निकटतम रेलवे स्टेशन से रेल का द्वितीय श्रेणी अथवा बस जैसा भी मामला हो, का किराया दिया जाएगा।

- (13) सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग को पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं के चयन और इसकी चयन प्रक्रिया के संबंध में अनन्य अधिकार होगा ।
- (14) मूल्यांकन समिति का निर्णय अंतिम होगा और सभी को मान्य होगा और इस निर्णय के विरुद्ध प्राधिकारी से कोई अनुरोध या अपील नहीं की जा सकेगी ।

नियमों में छूट प्रदान करने की शक्ति

इन नियमों के प्रावधानों में, यदि आवश्यक हो अथवा ऐसा किया जाना उपयुक्त हो तो सचिव (सड़क परिवहन और राजमार्ग) एक आदेश द्वारा छूट प्रदान कर सकते हैं।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, योजना आयोग, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, लोकसभा सचिवालय और राज्य सभा सचिवालय को भेजी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को जन साधारण की सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

सरोज कुमार दास
संयुक्त सचिव

अनुबंध - I**सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग**

भारत के संविधान की 7 वीं अनुसूची की सूची - 1 के अंतर्गत आने वाले निम्नलिखित विषय:-

- 1) मोटर वाहनों का अनिवार्य बीमा ।
- 2) रोड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन एक्ट, 1950 (1950 का 64) का प्रशासन ।
- 3) संसद द्वारा बनाए गए कानून के अधीन राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए जाने के लिए घोषित राजमार्ग ।
- 3क) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड क, व धारा 3 क और धारा 3 घ के अंतर्गत अधिसूचनाओं को विधायी विभाग की संवीक्षा और विधीक्षा किए बिना जारी करना ।

II. संघ शासित राज्यों के संबंध में :-

4. राष्ट्रीय राजमार्गों से भिन्न सड़कें ।
5. मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) का प्रशासन और मोटर वाहनों का कराधान ।
6. यंत्र चालित वाहनों से भिन्न वाहन ।

III. उक्त भागों में शामिल न किए गए अन्य विषय

7. केन्द्रीय सड़क निधि
8. सड़क कार्यों से संबंधित समन्वय और अनुसंधान ।
9. पूर्वोत्तर क्षेत्रों के सड़क कार्यों से भिन्न वे सड़क कार्य जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा पूर्णतः या अंशतः वित्त पोषित किया जाता है ।
10. मोटर यान विधायन ।
11. मोटर परिवहन और अंतर्देशीय जल परिवहन के क्षेत्र में परिवहन सहकारी समितियों को बढ़ावा देना।
12. सड़क अवसंरचना के क्षेत्र में निजीकरण नीति तैयार करना ।

IV. स्वायत्त निकाय

13. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

V. सोसाइटीज/ एसोशियसन

14. राष्ट्रीय राजमार्ग अभियंता प्रशिक्षण संस्थान

VI. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

15. भारतीय सड़क निर्माण निगम

VI. अधिनियम

16. रोड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन एक्ट, 1950 (1950 का 64)
17. राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48)
18. मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59)
19. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 69)

अनुबंध -II

सड़क परिवहन और राजमार्ग से संबंधित विषयों पर हिन्दी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार योजना ।

प्रविष्टि फार्म

1. लेखक/लेखकों का पूरा नाम :
2. पिता/ पति का नाम :
3. वर्तमान डाक पता :
4. पुस्तक/पांडुलिपि का शीर्षक :
5. प्रकाशित पुस्तक का प्रकाशन वर्ष
6. क्या आपने संलग्न घोषणा फार्म पर विधिवत हस्ताक्षर किए हैं ?
7. क्या पुस्तक/टंकित पांडुलिपि की पांच प्रतियां संलग्न हैं?
(भेजी गई प्रतियां लौटाई नहीं जाएंगी)
8. क्या पुस्तक/पांडुलिपि का सारांश संलग्न है?
9. मैं/और हम प्रमाणित करते हैं कि
 - i) मैं/और हम भारतीय नागरिक हूँ/हैं ।
 - ii) यह पुस्तक मैंने / हमने मूल रूप से हिन्दी में लिखी है ।
 - iii) इस योजना में मेरी /या हमारी पुस्तक को इस योजना में शामिल करने से किसी अन्य व्यक्ति के कॉपीराइट अधिकार का उल्लंघन नहीं होता है ।

मैं/हम सड़क परिवहन और राजमार्ग से संबंधित विषयों पर हिन्दी में मूल पुस्तकें लिखने की योजना के प्रावधानों और विनियमनों का पालन करने की प्रतिज्ञा करता हूँ / करते हैं ।

हस्ताक्षर :

नाम :

पता :

स्थान:

दिनांक :

टिप्पणी:- 1) इस फार्म को विधिवत भरकर पुस्तक / पांडुलिपि की पांच प्रतियों के साथ परिपत्र/विज्ञापन में दिए गए पते पर भेजें ।

2) लेखक/लेखिका द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित पुस्तक का सार भी पांच प्रतियों में संलग्न किया जाए ।

(हिंदी अनुभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 15 मई 2006

शुद्धि पत्र

संख्या ई - 11013/3/2004-हिंदी इस विभाग की हिंदी सलाहकार समिति के पुनर्गठन से संबंधित सम संख्यक संकल्प दिनांक 27 जून, 2005 में निम्न लिखित संशोधन किए जाएं, नामतः:-

1. क्रम संख्या 12 में - श्री दया नंद शुक्ला के निम्नलिखित स्थानीय पते को हटा दिया जाए:-
साउथ एवेन्यू, 7 त्यागराज मार्ग, नई दिल्ली 110011.
2. क्रम संख्या 15 में श्री गोपाल कृष्ण फरलिया के कार्यालय के पते - केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, कमरा नं. 401, उत्तरी विंग, सेवा भवन, राम कृष्ण पुरम नई दिल्ली 110066 को हटा दिया जाए ।
3. क्रम संख्या की मौजूदा प्रविष्टि को हटाया जाए और उसके स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाए :-

श्री धीरेन्द्र अग्रवाल, संसद सदस्य लोक सभा ,
स्थानीय पता
11 ए फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली
स्थायी पता
श्री धीरेन्द्र अग्रवाल, संसद सदस्य लोक सभा ,
187, अनुग्रह पुरी कॉलोनी,
गया - 823 001. (बिहार)

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी राज्य सरकारों / संघ शासित प्रशासनों , भारत सरकार के सभी मंत्रालयों / विभागों , राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधान मंत्री कार्यालय, केबिनेट सचिवालय, लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, संसदीय राजभाषा समिति , नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग और भारत निर्वाचन आयोग को भेज दी जाए ।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सामान्य जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित की जाए ।

प्रभाकर
उप सचिव

DEPARTMENT OF SPACE

Bangalore-560 094, the 12th May 2006

No. AS/S-25: The President is pleased to reconstitute the Space Commission with the following composition until further orders:-

- | | | |
|----|--|-----------------------------|
| 1. | Shri G. Madhavan Nair,
Secretary, Department of Space | Chairman |
| 2. | Shri Prithviraj Chavan,
Minister of State (PMO) | Member |
| 3. | Shri M.K. Narayanan,
National Security Adviser | Member |
| 4. | Shri T.K.A. Nair,
Principal Secretary to Prime Minister | Member |
| 5. | Shri B.K. Chaturvedi,
Cabinet Secretary | Member |
| 6. | Shri A.K.Jha,
Secretary, Department of Economic Affairs | Member &
Member(Finance) |
| 7. | Prof. R. Narasimha,
Ex-Director, NIAS | Member |
| 8. | Shri N. Pant,
Ex-Deputy Chairman, ISRO | Member |
| 9. | Dr. B.N.Suresh,
Director, Vikram Sarabhai Space Centre | Member |

S. V. RANGANATH
Secy. to the Space Commission

MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

New Delhi-110001, the 5th May 2006

RESOLUTION

No.E-11013/3/2002-Hindi: According to Department of Official Language O.M. No. II/20015/45/87-OL(A-2) dated 15.3.1988 and 4.5.1989, O.M. No. II/20015/23/88-OL(A-2) and O.M.No.II/20015/6/92-OL(A-2) dated 10.6.1992 Government of India hereby constitute the Hindi Salahkar Samiti of the Ministry of Statistics and Programme Implementation as under:

COMPOSITION

MINISTER OF STATE FOR STATISTICS AND
PROGRAMME IMPLEMENTATION
(INDEPENDENT CHARGE)

Chairman**Non Official Members:****Two MPs from Lok Sabha**

- | | | |
|-------|----------------------|--------|
| • (1) | Shri D.R. Nayak | Member |
| (2) | Jaswant Singh Bisnoi | Member |

Two MPs from Rajya Sabha

- | | | |
|-----|--------------------------|--------|
| (3) | Shri Girish Kumar Sanghi | Member |
| (4) | Shri Kalraj Mishra | Member |

Two MPs from the Committee of Parliament on Official Language

- | | | |
|-----|-----------------------------|--------|
| (5) | Shri Thaver Chand Gehlot | Member |
| (6) | Shri Mahendra Prasad Nishad | Member |

**Representative from Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad, XY -68,
Sarojini Nagar, New Delhi**

- | | | |
|-----|---|--------|
| (7) | Shri Mohan Prakash Dubey,
9/8, Sector 1, Pushpa Vihar,
New Delhi-110 017. | Member |
|-----|---|--------|

**Representative from Akhil Bhartiya Hindi Sanstha Sangh, Community
Centre (Municipal Corporation of Delhi)
10788-89, Jhandewalan Road, Nabi Karim, New Delhi-110055**

- | | |
|--|--------|
| (8) Shri Vibhuti Mishra,
General Secretary,
Hindi Sahitya Sammelan,
13, Sammelan Marg,
Allahabad - 211000. | Member |
|--|--------|

**Non-Official Members nominated by the Ministry of Statistics
and Programme Implementation**

- | | |
|--|--------|
| (9) Dr. (Smt.) Bageshri Chakrdhar ,
Professor - Shaheed Bhagat Singh College,
Delhi. | Member |
| (10) Shri Harendra Singh Samdarshi,
U-55A, Sakarpur,
Delhi. | Member |
| (11) Shri Krishna Dutt Shastri,
RZ 40/222, J-Block, West Sagarpur,
New Delhi-110046. | Member |
| (12) Dr. Shambhunath Singh,
1329, Sector 12,
R.K. Puram,
New Delhi-110022. | Member |

**Non-Official Members Nominate by the Ministry of Home Affairs
(Department of Official Language)**

- | | |
|--|--------|
| (13) Dr. T.R.Bhatt
" Pragaya Shree", VIth Cross, Kalyan Nagar
Dharwad, (Karnataka-580007) | Member |
| (14) Dr. Nazir Mohammad,
Rahatkada, Diggi Road (Near Abdullah Girls' College)
Aligadh-202001 | Member |
| (15) Sh. Narayan Rao Shinde ,
Navi Shukrawari, Dasra Road, Ward No. 18
Nagpur-440002 | Member |

Official Members**Department of Official Language (Ministry of Home Affairs)**

- | | |
|----------------------|--------|
| (16) Secretary | Member |
| (17) Joint Secretary | Member |

Ministry of Statistics and Programme Implementation

- | | |
|---|------------------|
| (18) Secretary | Member |
| (19) DG & CEO (NSSO) | Member |
| (20) Additional Secretary | Member |
| (21) Additional Director General (National Accounts) | Member |
| (22) Additional Director General (Training) | Member |
| (23) Additional Director General (FOD, New Delhi) | Member |
| (24) Joint Secretary (Admn.) | Member |
| (25) Deputy Director General (Computer Centre, New Delhi) | Member |
| (26) Joint Adviser (IPMD) | Member |
| (27) Director (NSSO) | Member |
| (28) Director (Admn.) | Member |
| (29) Deputy Secretary (Finance) | Member |
| (30) Deputy Director (O.L.) | Member Secretary |

Functions

2. The function of the Samiti will be to render advise for the implementation of the policies laid down by Kendriya Hindi Samiti and Department of Official Language regarding the use of Hindi for official purposes in the Ministry of Statistics and Programme Implementation.

Tenure

3. The tenure of the Samiti will be normally three years from the date of its composition subject to the following:

- (a) a member, who is Member of Parliament, will cease to be a member of the Samiti as soon as he ceases to be a Member of Parliament;
- (b) ex-officio member of the Samiti shall continue as members so long as they hold the office by virtue of which they are members of the Samiti;
- (c) a member nominated in a vacancy arising in the Samiti due to the death or resignation of any member shall hold office for the residual term.

Headquarters

4. The headquarters of the Samiti shall be at New Delhi.

Travelling and other allowances

5. The non-official members will be paid travelling and daily allowances for attending the meetings of the Samiti at the rates fixed by the Government of India from time to time and as per instructions contained in the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Government of India, Office Memorandum No.II/20034/4/86-OL(A-2) dated 22nd January, 1987.

Order

Ordered that a copy of this Resolution be sent to all State Governments, Administrations of Union Territories, President's Secretariat, Vice-President's Secretariat, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Office, Ministry of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Comptroller and Auditor General of India, Accountant General, Central Revenues and All Ministries/Departments of Government of India.

It is also ordered that a copy of this Resolution be published in the Gazette of India for general information.

A. K. SAXENA
Joint Secy.

The 16th May 2006

RESOLUTION

No. E-11013/3/2002-Hindi: In partial modification of this Ministry's Resolution of even number dated 5th May, 2005 (copy enclosed) the following amendments are hereby made in the composition of official members of this Ministry at page 3 under Heading **Ministry of Statistics and Programme Implementation.**

1. Following entry may be made against S.No. 20

Director General, Central Statistical Organisation

Member

2. Following entry may be made against S.No. 24

Joint Secretary (Admn.)

Member Secretary

3. Following entry may be made against S.No. 30

Deputy Director (O.L.)

Member

Order

Ordered that a copy of this Resolution be sent to all State Governments, Administrations of Union Territories, President's Secretariat, Vice-President's Secretariat, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Office, Ministry of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Comptroller and Auditor General of India, Accountant General, Central Revenues and All Ministries/Departments of Government of India.

It is also ordered that a copy of this Resolution be published in the Gazette of India for general information.

A. K. SAXENA
Joint Secy.

MINISTRY OF MINES

New Delhi, the 15th May 2006

RESOLUTION

No. E-11017/1/2004-Hindi. In partial modification of this Ministry's Resolution of even No. dated 17th May, 2005 regarding reconstitution of Hindi Salahkar Samiti of the Ministry of Mines, the name of Shri Suresh Bhardwaj, MP (Rajya Sabha) is hereby included against SI.No.8 of the said resolution in place of Smt Vanga Geetha, MP (Rajya Sabha). The address of the MP nominated by the Committee of Parliament on Official Languages, is as under:-

<u>Name</u>	<u>Local Address</u>	<u>Permanent Address</u>
Shri Suresh Bhardwaj MP (Rajya Sabha)	18 Meena Bagh New Delhi	R-1, Housing Board Colony Straberi Hills, Shimla-171002

ORDER

Ordered that a 'copy of this Resolution be communicated to all the Members of this Committee, President's Secretariat, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Committee of Parliament on Official Language, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Comptroller and Auditor General of India and all Ministries and Departments of the Government of India.

It is also ordered that a copy of this Resolution be published in the Gazette of India for the information of general public.

AJITA BAJPAYEE PANDE
Joint Secy.

MINISTRY OF SCIENCE & TECHNOLOGY
(DEPARTMENT OF SCIENCE & TECHNOLOGY)

New Delhi-110016, the 18th May 2006

RESOLUTION

No. E – 11017/2/2005 – Hindi:- In partial modification of this department's Resolution No. E-11017/5/89 – Hindi dated 6th August, 1990 the following amendment has been made to include "the departmental Authors" under "Dr. Meghnad Saha Award Scheme" of the Department of Science and Technology.

Para No.	For	Read
Para 7 (1)	Eligibility for participation in the prize scheme: This scheme is open to Indian citizens alongwith those employed in the Scientific Departments viz. DOE, DOD, DOEN, DAE, DOS, DNES, DSIR and DBT except DST Only.	Eligibility for participation in the prize scheme: This scheme is open to Indian citizens alongwith those employed in the Scientific Ministries/ Departments viz. DIT, Ministry of Ocean Development, Ministry of Environment and Forests, DAE, DOS, MNES, Ministry of Science & Technology (DST, DBT & DSIR)

The amendment will apply on the book published during the year 2005 and onward to be awarded under the Scheme.

Ordered that this resolution be published in the Gazette of India for general information.

Ordered also that a copy of this resolution be sent to all the Ministries and Departments of the Govt. of India, all the State Govt./ U.T. Govts., all the Universities of India and the News Agencies. It may be posted on the website of the Department.

K. S. NAPOLEAN
Director (Admn.)

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS
(DEPARTMENT OF ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS)

New Delhi-110001, the 12th May 2006

RESOLUTION

No. E-11012/1/2006-Hindi. The following Incentive Award Scheme for writing original books in Hindi on the subjects pertaining to the Department of Road Transport & Highways is hereby published for general information.

1. TITLE OF THE SCHEME

The Scheme may be called ' **Incentive award scheme for writing original books in Hindi on the subjects pertaining to Road Transport and Highways**'.

2. OBJECT OF THE SCHEME

The main object of the scheme is to encourage authors to write original books in Hindi on the subjects covered under the purview of the Department of Road Transport & Highways. The subjects pertaining to the Department of Road Transport and Highways is given in the **Annexure-1**.

3. PERIOD OF THE SCHEME

For the awards to be pronounced for any particular year, the books published during the preceding block of 3 years or the manuscripts prepared during such period shall be considered.

4. THE AWARDS

The details of awards under the Scheme shall be as follows:-

- | | | |
|---|---|---|
| (a) For the best adjudged author | : | Rs. 30,000/- in cash and felicitation |
| (b) For the second best adjudged author | : | Rs. 20,000/- in cash and felicitation |
| (c) For the third best adjudged author | : | Rs. 15,000/- in cash and felicitation |
| (d) consolation Award (Three) | : | Cash amount as decided by the
Evaluation committee & felicitation. |

5. SPONSORSHIP OF THE AWARDS

These awards shall be sponsored and financially supported by the Department of Road Transport and Highways.

6. ELIGIBILITY

- (i) Every Indian citizen, including the officers / employees of Government of India / State Governments/UTs, shall be eligible to participate in the Scheme. The employees / officers of the Department of Road Transport & Highways excluding Chairman and the Members of Evaluation Committee shall also be eligible to participate in the Scheme.
- (ii) The books/manuscripts written on the subjects falling within the purview of Department of Road Transport & Highways will only be accepted under the Scheme. Work of fiction shall not be eligible for any award under the Scheme
- (iii) The main part of the book/manuscript (typed in single space) should run into a minimum 100 pages (30,000 words approximately) excluding the annexure, appendix and other attachments.
- (iv) Any book authored by any Government servant in his official capacity or as a part of his official duty shall not be eligible for the Award.
- (v) Any book authored by or published by or with the financial aid of the Central Government/State Governments/Union Territory Administrations or any Public Sector Undertaking or Autonomous Body of the Central Government/State Governments/Union Territory Administrations shall not be eligible for the Award.
- (vi) Only original book and not translation shall not be eligible for the award.

7. PROCEDURE FOR SUBMISSION OF THE ENTRIES

- (i) The author shall submit the entry form duly filled in (Annexure-2).
- (ii) The author shall submit his / her entry form with 5 copies of the book / manuscript along with five copies of short summary.
- (iii) The books/manuscripts received under this Award Scheme shall not be returned.
- (iv) An author may send more than one entry under a particular period of the scheme but he / she will not be eligible for more than one Award.
- (v) The entries should reach on or before the last date indicated in the advertisement.

8. EVALUATION COMMITTEE

- a. An Evaluation Committee shall be constituted under the scheme to examine the entries and to recommend the awards. Secretary, Department of Road Transport & Highways shall be ex-officio Chairman of the Evaluation Committee. Besides, One officer each from the Department of Road Transport & Highways and Department of Official Language, M/o Home Affairs and three non-official Members as experts on the subject having knowledge of Hindi will be co-opted in the Evaluation Committee .
- b. The entries received under the scheme shall be sent to the Non-official members for their observations/comments thereon. They shall submit their views/recommendations within one month to the Department of Road Transport & Highways for placing before the Evaluation committee. The Evaluation Committee shall decide the order of its awarding after considering the recommendations of the Non official Members .
- c. Prizes shall be as recommended by the Evaluation Committee. The Award winners shall be intimated individually in writing.

- d. Non-official Members of the Evaluation Committee shall be entitled for honorarium at the rate of Rs. 500/- per entry subject to a maximum of Rs.2500/- . They shall also eligible for other allowances for attending the meetings as admissible under the rules.

9. GENERAL TERMS AND CONDITIONS

The participants of the scheme shall abide by and shall be governed by the following terms and conditions:-

1. The entries shall be invited from the authors through open advertisements in leading Newspapers/ Journals including the Employment News (Hindi Edition.)
2. Manuscripts(typed)/Books written/published during the prescribed period in which the scheme is in force shall only be accepted.
3. Department shall not be responsible for late receipt or loss in transit of books/ manuscripts.
4. Books/manuscripts received after the due date shall not be considered
5. Author shall furnish a certificate to the effect that the work is his original and does not violate the copyright of any other author under the Copyright Act (As amended from time to time) 1997. The authors shall continue to have the copy-right of their books/manuscripts even after the receipt of awards.
6. The book/manuscript shall not be the Hindi version of a book already written or published in any other language by the same author.
7. A book/ manuscript which have already received an award under any other scheme of the Government shall not be accepted.
8. If there are more than one authors of a book/manuscript, the amount of prize will be equally divided among them.
9. In the event of a book/manuscript being adjudged as not up to the required standard for any of the awards, the Evaluation Committee may recommend a consolation prize of any amount (less than the minimum prize) of that book/manuscript, if it deems fit.
10. No correspondence shall be entertained regarding selection of a book/manuscript for award.
11. Award shall be given at a function or any other appropriate occasion. Information of which shall be given to the Award Winners by the Department of Road Transport & Highways.
12. Award winner shall be eligible for second class railway fare from the nearest railway station to the venue of the award ceremony and back or the bus fare, as the case may be.
13. The Department of Road Transport & Highways shall have exclusive right to select the recipients of the awards and to regards its selection procedure.
14. The decision of the Evaluation Committee will be final and shall be acceptable by all and no request/appeal can be made to any authority against such decision.

POWER TO RELAX THE REGULATIONS.

The Secretary (RT&H) may, if it is necessary or appropriate to do so, relax any of the provisions of these regulations by an order.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all State Governments/ Administrations of UTs , all Ministries/Departments of the Government of India, President Secretariat, Prime Ministers Office, Cabinet Secretariat, Planning Commission, Comptroller and Auditor General of India, Union Public Service Commission, Lok Sabha Secretariat and Rajya Sabha Secretariat .

Ordered further that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

SAROJ KUMAR DASH
Joint Secy.

Annexure - I**DEPARTMENT OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
(SADAK PARIVAHAN AUR RAJ MARG VIBHAG)****I. THE FOLLOWING SUBJECTS WHICH FALL WITHIN LIST 1 OF THE SEVENTH SCHEDULE TO THE CONSTITUTION OF INDIA:**

1. Compulsory insurance of motor vehicles.
2. Administration of the Road Transport Corporations Act, 1950 (64 of 1950).
3. Highways declared by or under law made by Parliament to be national highways.
- 3A. Issuance of notifications under clause (a) of section 3, and section 3A and section 3D of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) without being scrutinized and vetted by the Legislative Department.

II. IN RESPECT OF THE UNION TERRITORIES:

4. Roads other than National Highways.
5. Administration of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) and taxation of motor vehicles.
6. Vehicles other than mechanically propelled vehicles.

III. OTHER SUBJECTS WHICH HAVE NOT BEEN INCLUDED UNDER THE PREVIOUS PARTS:

7. Central Road Fund.
8. Coordination and Research pertaining to Road Works.
9. Road works financed in whole or in part by the Central Government other than those in the North Eastern Region.
10. Motor vehicles legislation.
11. Promotion of Transport Co-operatives in the field of motor transport and inland water transport.
12. Formulation of the privatisation policy in the infrastructure areas of roads.

IV. AUTONOMOUS BODIES:

13. National Highways Authority of India.

V. SOCIETIES/ASSOCIATIONS:

14. National Institute of Training for Highway Engineers.

VI. PUBLIC SECTOR UNDERTAKINGS:

15. Indian Road Construction Corporation.

VII. ACTS:

16. The Road Transport Corporations Act, 1950 (64 of 1950).
17. The National Highway Act, 1956 (48 of 1956).
18. The Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988).
19. The National Highways Authority of India Act, 1988 (69 of 1988).

Annexure-II**Award Scheme for Writing Original Books in Hindi on the subjects pertaining to Road Transport & Highways.****Entry form**

1. Full Name of the author(s) -----
2. Name of Father/husband -----
3. Present Postal Address -----

4. Title of the Book/Manuscript -----
5. Year of publishing in respect of published book -----
6. Is duly signed declaration Performa enclosed ? -----
7. Are five copies of the book/typed manuscript enclosed ? -----
(Submitted copies will be non-returnable)
8. Is the gist of the book/manuscript enclosed ? -----
9. I/We certify that:-
 - i) I/We am/are Indian citizen(s)
 - ii) The book has been written originally in Hindi by me/us
 - iii) The copyright of any other person is not violated by entering my/our book in this Scheme

I/We promise to abide by the provisions of the regulations of the Scheme for Writing Original Books in Hindi on the subjects pertaining to Road Transport & Highways.

Signature

Name

Address

Place:

Date:

Note:-

- 1) This form duly filled up and along with five copies of the book may be sent on the address mentioned in the circular/advertisement.
- 2) The gist of the book duly signed by the author may also be enclosed in five copies.

(Hindi Section)

New Delhi, the 15th May 2006

CORRIGENDUM

No. E 11013/3/2004-Hindi:- In this Department's resolution of even number dated 27th June, 2005 regarding reconstitution of the Hindi Salahakar Samiti of the Department of Road Transport and Highways, the following amendments shall be made, namely:-

1. In S.No. 12 the following local address of Sh. Daya Nand Shukla may be deleted:-
South Avenue, 7, Tyagraj Marg, New Delhi- 110011.
2. In S.No. 15 of Sh. Gopal kRishna Farlia's Office address may be deleted.
3. S.No. 24 existing entry shall be deleted and substituted by the following :-

1. Sh. Dharendra Aggarwal, M.P. Lok Sabha
Local Address
11 A, Firoz Shah Road, New Delhi.
Permanent Address
2. Sh. Dharendra Aggarwal, M.P. Lok Sabha
187, Anugrah Puri Colony,
Gaya - 823001. (BIHAR)

ORDER

It is ordered that a copy of this Resolution may be forwarded to all the State Governments and Union Territories Administrations, All Ministries and Departments of the Government of India, President Sectt., Prime Minister's Office, Cabinet Sectt., Lok Sabha/Rajya Sabha Sectt., Planning Commission, Parliamentary Committee on Official Language, Comptroller and Auditor General of India, Union Public Service Commission and Election Commission of India.

It is also ordered that this may be published in the Gazette of India for information of general public

PRABHAKAR
Deputy Secy.